

दिनांक:- 14.11.2020

थाना हलिया व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा 15 हजार का इनामिया, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हलिया पुलिस द्वारा 15 हजार रुपया का इनामिया अपराधी संजय जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 27.09.2020 थाना हलिया पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब का निर्माण कर ब्रिकी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 350 लीटर अवैध शराब व 318 शीशी मय उपकरण, सफारी वाहन सहित बरामद किया गया था, जिसमें अभियुक्त फरार हो गये, इस संबंध में थाना हलिया पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, उक्त अभियोग में दिनांक 12.10.2020 को अभियुक्त राजेन्द्र चौरसिया पुत्र रामकैलाश निवासी रतेह थाना हलिया मीरजापुर को थाना हलिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, इस अभियोग में नामजद फरार अभियुक्त संजय जायसवाल पुत्र स्व० रामजी जायसवाल निवासी रानी बाग थाना कोतवाली कटरा की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा 15 हजार के इनाम की घोषणा की गयी। आज दिनांक 14.11.2020 को गिरफ्तारी हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थाना हलिया व स्वाट/ एस०ओ०जी० की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा समय 10.05 बजे वांछित अभियुक्त संजय जायसवाल पुत्र स्व० रामजी जायसवाल निवासी रानीबाग थाना को० कटरा मीरजापुर को लवकुश मिष्ठान भण्डार गड़बड़ा रोड़ रतेह चौराहा के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० रामस्वरूप वर्मा प्रभारी स्वाट मीरजापुर।
- 2-उ०नि० जयदीप सिंह प्रभारी एस०ओ०जी० मीरजापुर
- 3- उ०नि० योगेन्द्र पाण्डेय चौकी प्रभारी ड्रमडगंज थाना हलिया मीरजापुर।
- 4- का० संजय कुमार थाना हलिया मीरजापुर।
- 5- का० रामचन्द्र राम थाना हलिया मीरजापुर।
- 6-का० बृजेश सिंह स्वाट टीम मीरजापुर।
- 7-का० भुपेन्द्र सिंह स्वाट टीम मीरजापुर।
- 8-का० मनीष सिंह एस०ओ०जी० मीरजापुर।
- 9-का० नितीन सिंह सर्विलांस टीम मीरजापुर।

